

## प्रेस सार

### हिंदी का प्रयोग परस्पर जोड़े रखता है: सीएजी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय में आयोजित हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह में आज संबोधित करते हुए सीएजी श्री मुर्मू जी ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील की कि सभी अपने दैनिक जीवन में यथासंभव हिन्दी भाषा का प्रयोग करें और लोगों के बीच इसे और अधिक व्यापक बनाएं। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के प्रयोग से सभी कर्मचारी आपस में जुड़े हुए होने का अहसास करते हैं और हिन्दी में संवाद करने में सरलता होती है। श्री मुर्मू ने हिन्दी के प्रति उत्साह बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि हिन्दी का प्रयोग केवल कार्यालयों में नहीं बल्कि हमें अपने दैनिक जीवन में भी बढ़ाना चाहिए।

श्री मुर्मू ने कहा कि प्रतियोगिताओं में शामिल हुए सभी प्रतिभागियों तथा पुरस्कार विजेताओं को भी अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि हिन्दी के प्रति यह उत्साह वर्षभर बना रहेगा। उनके उद्बोधन में कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग में सभी कार्मिकों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाने और एक उत्साहजनक एवं प्रेरणापूर्ण वातावरण बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने और इसके महत्व से सभी को परिचित कराने की दिशा में हमारा कार्यालय निरंतर प्रगतिशील है।

महानिदेशक (राजभाषा) द्वारा प्रेरक संबोधन देते हुए कार्यालय के सभी कार्मिकों से आग्रह किया गया कि वे हिन्दी के प्रति सजगता और रुचि बढ़ाने के लिए भविष्य में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक भाग लें तथा हिन्दी के प्रचार-प्रसार का माध्यम बनें।

पखवाड़े के दौरान अधिकारी और कर्मचारी वर्ग की कुल 13 प्रतियोगिताएं ऑनलाईन माध्यम से ही आयोजित की गईं जिनमें 158 कार्मिकों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गयी। साथ ही राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की भी घोषणा की गयी। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रशासन अधिकारी सुश्री अनामिका अंतिल द्वारा किया गया।